

# जवाहर नवोदय विद्यालय





## प्रवेश परीक्षा (कक्षा-VI)

### सॉल्वड पेपर 2020

#### खण्ड I मानसिक योग्यता परीक्षण





##### भाग I

निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में, प्रत्येक प्रश्न में चार चित्र (a), (b), (c) और (d) दर्शाए गए हैं। इन चार चित्रों में से तीन चित्र किसी विधि से एकसमान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।



##### भाग II


निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर (a), (b), (c) और (d) उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।




## भाग III

निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र (a), (b), (c) और (d) पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएँ जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ. अम. आर. उत्तर-पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।


9. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र




11. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र



10. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र




12. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र




## भाग IV

निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में, बाईं ओर तीन प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणीक्रम में हैं। श्रेणीक्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ. अम. आर. उत्तर-पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।


13. प्रश्न चित्र




उत्तर चित्र




14. प्रश्न चित्र




उत्तर चित्र




15. प्रश्न चित्र




उत्तर चित्र



16. प्रश्न चित्र




उत्तर चित्र




**भाग V**

**निर्देश** प्रश्न संख्या 17 से 20 में, प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह (?) है। प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित सम्बन्ध है। इसी तरह का सम्बन्ध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिह्न को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।


17. प्रश्न चित्र




उत्तर चित्र




19. प्रश्न चित्र




उत्तर चित्र




18. प्रश्न चित्र




उत्तर चित्र



20. प्रश्न चित्र




उत्तर चित्र




**भाग VI**

**निर्देश** प्रश्न संख्या 21 से 24 में, प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र (त्रिभुज, वर्ग, वृत्त) के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में (a), (b), (c) और (d) से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।


21. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र




23. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र



22. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र




24. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र




## भाग VII

**निर्देश:** प्रश्न संख्या 25 से 28 में, बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर (a), (b), (c) और (d) से चिह्नित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिम्ब को उत्तर चित्र से चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।


25. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र




27. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र



26. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र




28. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र




## भाग VIII

**निर्देश:** प्रश्न संख्या 29 से 32 में, बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा दाईं ओर (a), (b), (c) और (d) से चिह्नित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।


29. प्रश्न चित्र




उत्तर चित्र




30. प्रश्न चित्र




उत्तर चित्र




31. प्रश्न चित्र




उत्तर चित्र



32. प्रश्न चित्र




उत्तर चित्र




**भाग IX**

**निर्देश:** प्रश्न संख्या 33 से 36 में, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर (a), (b), (c) और (d) से चिह्नित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट-आउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।


33. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र




35. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र



34. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र




36. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र




**भाग X**

**निर्देश:** प्रश्न संख्या 37 से 40 में, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर (a), (b), (c) और (d) से चिह्नित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा/सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।


37. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र




39. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र



38. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र



40. प्रश्न चित्र उत्तर चित्र



**खण्ड II अंकगणित परीक्षण**

**निर्देश:** प्रत्येक प्रश्न के लिए चार सम्भावित उत्तर हैं, जिन्हें (a), (b), (c) और (d) क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।

41. 7 अंकों की बड़ी-से-बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी-से-छोटी संख्या में कितना अन्तर है?

- (a) 9990999 (b) 9993999  
(c) 9996999 (d) 9998999

42. 6 अंकों की बड़ी-से-बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी-से-बड़ी संख्या का अन्तर क्या है?

- (a) 100000 (b) 100001  
(c) 99999 (d) 900000

43. निम्न में से कौन-सा 25 के बराबर नहीं है?  
 (a)  $50 - (100 + 4)$   
 (b)  $20 + (20 + 4)$   
 (c)  $10 + (5 \times 2) + (10 - 5)$   
 (d)  $24 + (2 \times 1)$
44.  $x$  का वह मान, जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है, है  

$$\left(3\frac{7}{11} \times \frac{11}{5}\right) + \left(\frac{3}{7} \times x\right) = \frac{4}{3}$$
  
 (a)  $\frac{7}{2}$  (b) 14 (c) 7 (d) 28
45. 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक (HCF) तथा लघुत्तम समापवर्तक (LCM) का योगफल है  
 (a) 330 (b) 960 (c) 915 (d) 630
46.  $\frac{3}{8} + \left(\frac{5}{3} - \frac{1}{6}\right) + \frac{5}{8}$  बराबर है  
 (a)  $\frac{3}{8}$  (b)  $2\frac{5}{8}$   
 (c)  $\frac{7}{8}$  (d)  $1\frac{1}{8}$
47. यदि  $15 - 15 + 15 \times 6 = x$  है, तो  $x$  का मान है  
 (a) 6 (b) 0  
 (c) 9 (d) 84
48.  $0.9 + (0.3 \times 0.3)$  का मान है  
 (a) 0.01 (b) 0.1  
 (c) 1 (d) 10
49. यदि एक संख्या B एक अन्य संख्या C से 10% कम है तथा C, 150 से 5% अधिक है, तो B का मान है  
 (a) 157.85 (b) 153.85  
 (c) 151.75 (d) 141.75
50. 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है  
 (a) 8.75 ग्राम (b) 0.5 ग्राम  
 (c) 0.875 ग्राम (d) 17.5 ग्राम
51. निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम (पूर्ण संख्या में) है  
 $496 \times 102 - 7.1 \times 297 - 5.1 \times 201$   
 (a) 390 (b) 290  
 (c) 209 (d) 190
52. एक पार्क 1500 मी लम्बी तथा 750 मी चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के चार चक्कर लगाने हैं। 4.5 किमी/घण्टा की चाल से उसे कितना समय लगेगा?  
 (a) 40 घण्टे (b) 20 घण्टे  
 (c) 10 घण्टे (d) 4 घण्टे
53. पक्षियों के एक झुण्ड के  $\frac{1}{4}$  पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुण्ड के  $\frac{1}{5}$  भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं?  
 (a) 40 (b) 18  
 (c) 10 (d) 8
54. अमित ने एक मेज ₹ 1200 में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर ₹ 200 व्यय किये। उसने फिर इसको ₹ 1680 में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है  
 (a) 12% लाभ (b)  $16\frac{2}{3}$ % लाभ  
 (c) 20% हानि (d) 20% लाभ
55. एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाण समान हैं। वर्ग की भुजा 16 मी है तथा आयत की लम्बाई 18 मी है। आयत की चौड़ाई है  
 (a) 14 मी (b) 15 मी  
 (c) 16 मी (d) 17 मी
56. 8 मी लम्बी, 6 मी ऊँची तथा 22.5 सेमी मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट का माप 25 सेमी  $\times$  11.25 सेमी  $\times$  6 सेमी है?  
 (a) 640 (b) 1380  
 (c) 6400 (d) 7600
57. हम अपने गंतव्य स्थान पर  $4\frac{1}{2}$  घण्टे यात्रा करने के पश्चात् 2 : 45 अपराह्न पर पहुँचे। हमने यात्रा कितने बजे आरम्भ की थी?  
 (a) 9 : 00 पूर्वाह्न (b) 10 : 00 पूर्वाह्न  
 (c) 10 : 15 पूर्वाह्न (d) 8 : 15 पूर्वाह्न
58. 640 का अभाज्य गुणनखण्ड है  
 (a)  $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$   
 (b)  $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$   
 (c)  $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5$   
 (d)  $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$
59. कितने वर्षों में ₹ 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹ 1800 हो जाएगी?  
 (a) 10 (b) 20  
 (c) 15 (d) 25
60.  $140.75 \times 0.01$  बराबर है  
 (a) 140.75 (b) 14000.75  
 (c) 1.4075 (d) 0.14075

### खण्ड III भाषा परीक्षण (हिन्दी)

**निर्देश** इस खण्ड में चार अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर पाँच प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए चार सम्भावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या (a), (b), (c) और (d) हैं। इनमें से केवल एक उत्तर की सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।

#### अनुच्छेद-1

पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब यह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थस्थानों में घूमें। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला।

61. यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे, तो उसके लिए ..... करना महत्वपूर्ण है।  
(a) अध्ययन (b) कार्य (c) पर्यटन (d) ध्यान

62. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द 'मनोरंजक' का समानार्थी है?  
(a) शैक्षिक (b) मनभावन  
(c) थकाने वाला (d) दृश्यावलोकन

63. .... स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था।

(a) प्रशिक्षण (b) तीर्थ  
(c) शहरी (d) व्यापारिक

64. लोग यदि अधिक ..... करें, तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है।  
(a) पर्यटन (b) बातचीत  
(c) खेल (d) प्रश्न

65. ऋषि वह व्यक्ति है जो ..... होता है।  
(a) विद्वान (b) चतुर  
(c) स्वतन्त्र (d) धूर्त

#### अनुच्छेद-2

प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी सम्पत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हों तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियन्त्रण संभालता है और घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं। अन्य लोग होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पम्प चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊँची जगहों तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं।

66. अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है?  
(a) वे बहादुर होते हैं  
(b) वे प्रायः अपने जीवन के खतरे में डालते हैं  
(c) वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते  
(d) उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है

67. किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है  
(a) मिनटों में (b) घण्टों में  
(c) दिनों में (d) सप्ताहों में

68. अग्निशमनकर्ता 'जान हथेली पर लेकर' प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है  
(a) वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं

(b) वे आग बुझाते हैं  
(c) वे अपना जीवन संकट में डालते हैं  
(d) वे पम्प से होज पाइप को जोड़ते हैं

69. 'अपने हाथों से चलाने' से आशय है  
(a) किसी व्यक्ति से काम लेना  
(b) अपने हाथों से काम करना  
(c) किसी मशीन का उपयोग करना  
(d) अपने शरीर का उपयोग करना

70. 'घटित होना' का अर्थ वही है जो ..... का है।  
(a) आना (b) होना  
(c) बुलाना (d) आग लगाना

### अनुच्छेद-3

हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक-एक कर दुबारा पहना किन्तु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई किन्तु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे एक विचार आया, उसकी आँखों में चमक आ गई, वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, "माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, किन्तु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूँ। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं।" उसकी माँ मुस्कराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी।

71. हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह

- (a) थक गई थी
- (b) तारे देखना पसन्द करती थी
- (c) सोच रही थी कि क्या पहना जाए
- (d) आलसी लड़की थी

72. वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि

- (a) वे फैशन के अनुसार नहीं थे
- (b) वे बहुत रंगीन थे
- (c) उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है
- (d) कपड़े उसे फिट नहीं बैठे

73. 'संग्रह' का समानार्थक शब्द है

- (a) इकट्ठा करना
- (b) बाँटना
- (c) साझा करना
- (d) उपहार देना

74. हेमा है

- (a) लालची
- (b) दानी
- (c) स्वार्थी
- (d) कृपण

75. 'दान करना' का विपरीतार्थक है

- (a) सौंपना
- (b) लेना
- (c) बाँटना
- (d) खर्च करना

### अनुच्छेद-4

चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना। साइकिल चलाना स्वस्थ, न्यून आघात वाला व्यायाम है जिसका आनन्द छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। यह आनन्ददायक, सस्ती होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। काम पर जाने या दूकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन एक अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने का अनुमान है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घण्टे साइकिल चलाने से हम एक वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं।

76. अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें ..... के लाभ बताना है।

- (a) स्वस्थ रहने
- (b) साइकिल चलाने
- (c) व्यायाम करने
- (d) भार कम करने

77. जब लेखक ने कहा है कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन-सा सही नहीं है?

- (a) इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती
- (b) इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता है
- (c) इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता
- (d) इसकी सवारी सभी आयुवर्ग के लोग कर सकते हैं

78. 'निष्क्रिय' शब्द का विपरीतार्थी शब्द है

- (a) सक्रिय
- (b) आलसी
- (c) बेकार
- (d) काम से जुड़ा

79. न्यून आघात वाला व्यायाम वह है

- (a) जो थकाए नहीं
- (b) जिस पर अधिक व्यय न आए
- (c) जो कार्यकुशल न हो
- (d) जो उबाऊ न हो

80. नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सबसे सहायक है, केवल इसे छोड़कर

- (a) वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना
- (b) काम को आनन्द से जोड़ना
- (c) गम्भीर दुर्घटना से बचाव
- (d) स्वस्थ रहना



## उत्तरमाला

1 (d)	2 (b)	3 (d)	4 (a)	5 (b)	6 (b)	7 (b)	8 (c)	9 (a)	10 (b)
11 (d)	12 (d)	13 (b)	14 (b)	15 (c)	16 (c)	17 (c)	18 (a)	19 (c)	20 (b)
21 (b)	22 (c)	23 (d)	24 (b)	25 (c)	26 (a)	27 (d)	28 (b)	29 (b)	30 (c)
31 (a)	32 (d)	33 (d)	34 (b)	35 (b)	36 (b)	37 (b)	38 (c)	39 (d)	40 (b)
41 (d)	42 (d)	43 (d)	44 (b)	45 (c)	46 (c)	47 (c)	48 (d)	49 (d)	50 (c)
51 (d)	52 (d)	53 (d)	54 (d)	55 (a)	56 (c)	57 (c)	58 (d)	59 (a)	60 (c)
61 (c)	62 (b)	63 (b)	64 (a)	65 (a)	66 (c)	67 (a)	68 (c)	69 (b)	70 (b)
71 (c)	72 (d)	73 (a)	74 (b)	75 (b)	76 (b)	77 (d)	78 (a)	79 (a)	80 (b)